

## **Genus Prime Infra Limited**



(Formerly Gulshan Chemfill Limited)
CIN-L24117UP2000PLC032010

Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, U.P. Ph.: +91-591-2511171, 09837075702/3 Fax: +91-591-2511242

Website: www.genusprime.com

October 31, 2023

**BSE Limited** 

(Corporate Relationship Department), P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 E-mail: corp.compliance@bseindia.com

**BSE SCRIP CODE: 532425** 

Dear Sir,

Sub: Copy of Public Notice of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 advertised in Newspapers

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in newspapers with respect to the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023.

We request to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For Genus Prime Infra Limited (Formerly Gulshan Chemfill Limited)

Jeevan Kumar Company Secretary **PUBLIC NOTICE** 

Notice is hereby given that the shares certificate(s) for 225 bearing Equity share certificate. No(s) 1328552 and distinctive No(s) 1391753336-1391753560 under the folio No. 03515966 of Larsen & Toubro Limited standing in the name(s) of **DEVRAJ** BAWA (DECEASED) Jointly with NEERAJ BAWA has/have been lost or mislaid and the undersigned has/have applied

to the Company to issue of duplicate share certificate(s) for the said shares Any person(s) who has any claim(s) in respect of the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited, Selenium Tower-B, Plot 31-32. Gachibowli, Financial District, Hyderabad - 500032 within one month from the date else the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares. Name(s) of the shareholder(s) **NEERAJ BAWA** 

Place: Mumbai Date: 31.10.2023



(INDIA) LIMITED Read, Office: Plot No. A-177, Okhla Industria Area. Phase-I. New Delhi-110020 (CIN: L45101DL1979PLC009654) Website: - www.acilnet.com,

E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com Pursuant to Regulations 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements Regulation 2015, notice is hereby given that

the meeting of the Board of Directors will be held on Friday, November 10, 2023 through physical / virtual/ video conferencing, inter alia to consider and take on record the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated with limited review report by the Statutors Auditors of the Company for the guarter and half year ended 30th September, 2023 and other agenda items, if any, Further in continuation of our intimation on

closure of trading window on 28th September 2023 and pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company shall remain closed for all designated persons and their immediate relatives till 12th, November 2023. For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

Place: New Delhi (Vipin Kumar Tiwari)

Date: 30.10.2023 Company Secretary Form No. INC-26

{Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi

n the matter of sub-section (4) of Section 13 o Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AŃD In the matter of SWAKSHI TEXTILES PRIVATE LIMITED

(CIN: U17290DL2010PTC208362) having its Registered Office at 5B/111, POCKET-5B SECTOR-4, ROHINI, DELHI-110085 ..Applicant Company / Petitione

NOTICE is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 05th October, 2023 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor **complaint form** or cause to be delivered or send by registered post his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

5B/111, POCKET-5B SECTOR-4, ROHINI, DELHI-110085 For & on behalf of SWAKSHI TEXTILES PRIVATE LIMITED

VIRENDER KUMAR JAÍN DIN: 02318892 **Date**: 30.10.2023 Place : Delhi

Legal Cell HDFC BANK Plot #31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015 We understand your world

"APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guaranto (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 14th December 2023, for recovery of Rs. 1,67,17,804/- o/s as on 01.11.2021 along with further interest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from (i) M/s Swatantra Fabrics through its proprietor Mr. Paramjeet Singh, (ii) Mr. Paramjee

Singh, (iii) Mr. Balvinder Singh & (iv) Mrs. Poonam Kumari. The reserve price will be Rs 20,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs. 2,00,000/-Short description of the immovable property Residential Flat No. 651 On Second Floor, Situated At Pocket-1, Built On Gh-1, Phase-4, Sector

 Rohini, New Delhi-110085. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Bank Ltd, Secured Creditor's website https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices.

Date: 31.10.2023 , Place: New Delhi Authorised Officer, HDFC Bank Ltd

Legal Cell HDFC BANK Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015 We understand your world "APPENDIX- IV-A[See proviso to rule 8 (6)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guaranto

(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 12th December 2023, for recovery of Rs. 89,46,225/- o/s as on 01.03.2022 along with further interest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from (i) M/s S.S. Sports Through Its Proprietor Mr. Sunil Kumar, (ii) Mr. Sunil Kumar & (iii) Mrs Parul Ahuja. The reserve price will be Rs. 41,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs. 4,10,000/-.

SHORT DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Property No. 240, Measuring 60 Sq. Mtrs, First Floor, Amberhai, Dwarka Residential Scheme Sector-19. Dwarka. Delhi For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Bank Ltd, Secured Creditor's website. https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices.

Date: 31.10.2023 , Place: New Delhi Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.

Genus energizing lives **GENUS PRIME INFRA LIMITED** 

(Formerly Gulshan Chemfill Limited)

Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, Uttar Pradesh Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Ph.: 0591-2511242, E-mail: cs.genusprime@gmail.com, Website: www.genusprime.com, CIN: L24117UP2000PLC032010 EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated) CONSOLIDATED STANDALONE Quarter Half Year Quarter Half Year Quarter Quarter Half Year Year Quarter Quarter Half Year Year Ended Ended Ended Ended Ended Ended Ended Ended **Particulars** Ended Ended Ended Ended No. 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 30.09.2023 Audited Unaudited Audited 1 Total income from operations 5.31 7.41 4.48 12.72 10.14 18.95 6.25 8.24 5.59 14.49 11.96 22.02 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax 0.20 (0.16)(0.84)0.16 (1.00) (2.55)(0.85)(199.55) (1.07)(200.62)(2.64)(0.77)Exceptional and/or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (0.16)(0.84)0.16 (2.55)(0.85)(199.55)(1.07)0.20 (200.62)(2.64)(0.77)(1.00)(after Exceptional and/or Extraordinary items) 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after (0.16)(0.84)0.16 (1.00)(2.55)(0.85)(199.55) (1.07)0.20 (200.62)(2.64)(0.77)Exceptional and/or Extraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period (0.84)0.16 (2.55)(199.55)(1.07)0.20 (246.33)(0.16)(1.00)(268.45)(200.62)(2.64)[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income after tax) 6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 298.53 Rs.2/- each) 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 8 Earnings Per Share (of Face value of Rs.2/each) - (not annualised) (amount in Rs.) Basic (0.01)(0.01)(1.34)(0.01)(0.01)(0.01)(0.02)(1.34)(0.20)(0.01)

Diluted: Notes:

Place: Moradabad

Date: October 30, 2023

1. The above financial results of Genus Prime Infra Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 30th October, 2023. The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of the financial results.

(0.02)

(0.01)

(1.34)

(0.01)

(0.01)

2 The Above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

3 Previous year/period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year classification.

Whole Time Director & CEO DIN: 00016133

POSSESSION NOTICE

(1.34)

(0.20)

For and on behalf of the Board of Directors

INDIAN BANK giften der 📣 Indian Bank Civil Lines, Moradabad

(0.01)

[Under Rule 8(1) of Security Interest Whereas, The undersigned being the Authorised officer of the INDIAN BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60

days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any

dealings with the property will be subject to the charge of the INDIAN BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details of properties where possession had been taken is as follows:

No.	Guarantor/Mortgagor/ Branch Name	Description of the Immovable Property	Outstanding Amount u/s 13(2)	Date of Demand Notice	Date of Possession
100	<ol> <li>M/S J.V.D Engineers and Contractors (Firm), Address- 221-C Prem Nagar Bareilly 2. Mrs. Shivani Saxena (Partner, Guarantor, Mortagagor) W/o Mr. Vinit Kumar Saxena, R/O 221 C Prem Nagar Bareilly 3. Mr. Anuj Saxena (Partner) S/o Mr. Shyam Murari Lal Saxena, R/O 221 C</li> </ol>	consisting of House No 285, Type C situated at Utsav Mahanagar -II Bareilly Uttar Pradesh having size of land Measuring 167.07 Sqm in	+ Interest Legal and other expenses	12.05.2023	27.10.2023
11	Prem Nagar Bareilly 4. Mr. Prasant Suman (Partner and Guarantor) S/o Jagdish Bahadur Suman, R/O 222 Prem Nagar Bareilly 5. Mr. Surendra Kumar Sharma (Partner and Guarantor) S/o Baleshwar Sharma R/O Vill and Post-Morna Muzzaffar Nagar Bihar 6 Mr. Vineet Kumar Saxena (Mortagagor and Guarantor) S/o Shyam Murari Lal Saxena R/O 307-G Dehradun Kalika Dharchula, Pithoragarh Branch: Nagariya Parikshit, Bareilly	Vineet Kumar Saxena (Partner, Guarantor & M Shyam Murari Lal Saxena (Guarantor & Mortg & 282 Type - C <b>On the South by</b> : Plot No. 286 <b>the West by</b> : Rasta Pvt 30 feet thereafter land	lortgagor) and Mr. \ lagor) <b>Bounded: O</b> Type-C <b>On the Eas</b>	n the North by:	Plot No. 281

R/O Ward No. 36 Saniya Rani Mewa Kunwar CB Ganj consisting of Plot at Part of Gata No. 547 and Bareilly 2. Mr. Tarik Kamran (Guarantor), S/O Ibadullah 548 measuring 98.47 Sq Mt. in Sanaiya Rani Abbasi, R/O 77Bankhana Bareilly 3. Mr. Mohd. Akram Mew Kunwar Near Khusro College Distt. (Guarantor), S/o Late Ismail, R/O- Partapur Jeevan Sahay Bareilly through Sale Deed registered at Bahi Pilibhit Road Bareilly

Branch: Nagariya Parikshit, Bareilly

Number 1, Zild No.- 10558 on page number 1 to 46 at Serial Number 10719 in the office of SubRegistrar Bareilly-II on 27/10/2018. Bounded: On the North by: Rasta 18Ft Wide On the

Place: Bareilly, Pithoragarh Dated: 30.10.2023

South by: Aarazi of Seller On the East by: Aarazi of other person On the West by: Aarazi of

JUPITER WAGONS LIMITED



# (FORMERLY COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO LIMITED)

CIN: L28100MP1979PLC049375

Regd. office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

Extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter / Half Year Ended September 30, 2023

			Standalone			Ĭ	Consolidated						
SI. No.	I SVSIV	Quarter Ended	Preceding Quarter ended	Corresponding quarter ended in the previous year	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended	Quarter Ended	Preceding Quarter ended	Corresponding quarter ended in the previous year	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
1010×210		30 September 2023	30 June 2023	30 September 2022	30 September 2023	30 September 2022	31 Mar 2023	30 September 2023	30 June 2023	30 September 2022	30 September 2023	30 September 2022	31 Mar 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	88,468.24	75,540.64	41,770.42	1,64,008.88	71,427.74	2,07,333.45	88,508.37	75,540.64	41,770.42	1,64,049.01	71,427.74	2,07,333.45
2	Net Profit for the period (beforeTax)	10,901.73	8,464.71	3,719.90	19,366.44	5,702.76	20,519.09	10,951.18	8,390.23	3,645.26	19,341.41	5,567.97	20,049.03
3	Net Profit for the period (after tax)	8,158.09	6,359.91	2,480.38	14,518.00	3,821.61	12,537.57	8,207.54	6,285.43	2,405.74	14,492.97	3,686.82	12,067.51
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8,155.67	6,407.33	2,488.34	14,563.00	3,862.77	12,527.90	8,205.12	6,332.85	2,413.70	14,537.97	3,727.98	12,057.84
5	Equity Share Capital	39,948.70	39,948.70	38,744.74	39,948.70	38,744.74	38,744.74	39,948.70	39,948.70	38,744.74	39,948.70	38,744.74	38,744.74
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)												
	1. Basic:	2.04	1.62	0.64	3.66	0.99	3.24	2.05	1.60	062	3.65	0.95	3.12
	2. Diluted:	2.04	1.62	0.64	3.66	0.99	3.24	2.05	1.60	0.62	3.65	0.95	3.12

The above Statement for the quarter and half year ended 30 September 2023 of Jupiter Wagons Limited (Formerly known as Commercial Engineers & Body Builders Co Limited) ("the Company"), has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 29 October 2023.

These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.

On 15 May 2023, the Company has approved the issue and allotment of 12,039,611 fully paid-up equity shares of the Company to eligible Qualified Institutional Buyers in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 at an

issue price of Rs. 103.75 per share (including securities premium of Rs. 93.75 per share) for a consideration of Rs. 12.491.10 lakhs. Pursuant to the allotment of these share the paid-up equity share capital of the Company increased from Rs. 38.744.74 lakhs comprising 387,447,419 fully paid-up equity shares to Rs. 39,948.70 lakhs comprising 399,487,030 fully paid-up equity shares. In the Insolvency Resolution Process of Corporate Person (CIRP) as per the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 of Stone India Limited (SIL) Hon'ble NCLT, Kolkata Bench, vide its order No. IA (IB) 1335 of 2022 in CP IB 565 KB 2020 dated 08 June 2023

has approved the Resolution Plan (ARP) submitted by Jupiter Wagons Limited and consequently Jupiter Wagons Limited is now Successful Resolution Applicant. The current day to day affairs of the SIL is being managed by the Monitoring Committee, headed by the Resolution Professional. The process of payment to the relevant stakeholders, transfer of assets, issue of equity shares, constitution of Board of Directors and other statutory formalities of filing the necessary forms with various authorities, as applicable, are in process. The SIL is also in the process of closing its books of account for prior years as well as for the current period ended 30 September 2023. The control of the SIL will be

transferred to the Company only upon completion of all the above-mentioned processes. Considering the reasons as stated above and the on-going process of filing of statutory forms with various authorities, in view of the management, the control of SIL has not yet been

transferred to the Company as evaluated under the principles of Ind AS 110, 'Consolidated Financial Statements'. 5. During the quarter, subsequent to obtaining approval of the Shareholders in the AGM, the company has paid final dividend of Re. 0.50 per equity share for the FY 2022-23. The total outflow on this account was Rs. 1,997.44 lakhs

The Company is in the process of raising funds aggregating up to Rs 70,000 lakhs through Qualified Institutions Placement ("QIP") in terms of Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "ICDR Regulations") and/or any other permissible mode(s), in accordance with the ICDR Regulations, through public and/or private offerings of equity shares and/or any other convertible securities. The Board of Directors of the Company have passed the Resolution in this regard dated 5 September 2023.

under Ind AS 108, Operating Segments are not applicable.

The Group is mainly engaged in the business of metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicles and rail freight wagons in India. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute one single reportable segment, Accordingly, disclosures

3. These results have been filed with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and is also available on the Company's website at www.jupiterwagons.com.

Vivek Lohia

**Managing Director** DIN-00574035

For and on Behalf of the Board

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever

## INDIAN RAILWAYS

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय (RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड)

CORRIGENDUM-2 Subject: E-Tender no. TM-2302 for the procurement of Integrated Track Monitoring System from Zero Speed (ZITMS) and its operations The Corrigendum-2 regarding modification of tender conditions etc. have been

> (Rajiv Kumar Tanwar) Director Track (Mod.) Railway Board, Tele No. 011-47845530 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE 3388/2023

E-AUCTION SALE NOTICE UNDER IBC, 2016

Sale Notice under IBC, 2016 M/s Abhinav Steels and Power Limited (in Liquidation)

CIN: U74899DL1987PLC029384 Regd. Off (as per MCA records): 401, Mahavirji Complex LSC, Rishabh Vihar, New Delhi-110092 In

uploaded on website http://ireps.gov.in.

Date: 30.10.2023

Liquidator's Office: CS-14, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad, 201010 Contact Person: Aradhana Singh - Mobile No. 8920352845 Date of E-auction - 25th November, 2023

Sale of assets of M/s Abhinav Steels and Power Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench vide order dated 02.09.2022 in C.P. (IB) - 275(ND)/ 2019. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform https://www.eauctions.co.in/

Description	Date and Time of E- Auction	Reserve Price (INR)	Submission of EMD Amount	Bid Incremental value
BLOCK-1: Composite Block of all the assets as mentioned below in Block No. 2 & 3	25-11-2023 (12.30 P.M. to 1.30 P.M.) with unlimited extension of 5 min. each.	₹ 55,59,47,635/-	₹ 2,77,97,382/- on or before 23-11-2023, before 12:30 P.M.	₹ 50,00,000/-
BLOCK-2: Land & Building of Abhinav Steels and Power Limited situated at Plot no. A-42, 43, 44, 45, 46 & 47 Satharia Industrial Development Authority, Satharia, Jaunpur Uttar Pradesh.	25-11-2023 (02.30 P.M. to 3.30 P.M.) with unlimited extension of 5 min. each.	₹ 18,48,61,176/-	₹ 92,43,059/- on or before 23-11-2023, before 2:30 P.M.	₹ 20,00,000/-
BLOCK-3: Plant & Machinery of Abhinav Steels & Power Limited situated at Plot no. A-42, 43, 44, 45, 46 & 47 Satharia Industrial Development Authority, Satharia, Jaunpur Uttar Pradesh.	25-11-2023 (4.30 P.M. to 5.30 P.M.) with unlimited extension of 5 min. each.	₹ 37,10,86,459/-	₹ 1,85,54,323/- on or before 23-11-2023, before 4.30 P.M.	₹ 30,00,000/-

Liquidator, EMD Submission last date: 23rd Nov. 2023.

2. EMD shall be deposited on or before 23rd Nov, 2023 through Demand Draft/ NEFT/RTGS/Cheque in the below-

mentioned Bank account: Account Number: 023663300005239, Beneficiary Name: ABHINAV STEELS AND POWER LIMITED IN LIQUIDATION, IFSC Code: YESB0000470 Bank Name: Yes Bank, Branch: VAISHALI BRANCH Detailed terms and conditions are available in the e-auction process document which will be uploaded on the e-auction agency's website on 31st Oct, 2023.

Last date for submission of Expression of Interest – 14th Nov. 2023.

5. Declaration of Qualified Bidders- 15th Nov, 2023. 6. The successful bidder of Plant & Machinery (Block- 3) will be granted 120 days to dismantle the Plant & Machinery from

days from the date of issue of the sale certificate.

the date of issue of the sale certificate. The successful bidder of Land & Building (Block -2) will be given physical possession of the Land & Building within 120.

8. In the event of success of auction block-wise, the successful bidder of the Land & Building will receive physical possession of the Land only after the successful bidder of the plant and machinery completes the dismantling and removal process. To facilitate this, a period of 120 days will be allowed for the successful bidder of the Plant & machinery

Preference will be given to the successful bidders based on the objective of maximizing the value of assets. In the event that both block 1 and 3 secure successful bids in the auction, the Liquidator's decision shall be final, taking into account the aforementioned objectives of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This Sale Notice shall be read in conjunction with the complete E-Auction Process Document containing details of

the assets, online e-auction bid form, declaration and undertaking forms, general terms and conditions of the e-auction

Sale, which is available on the website: https://www.eauctions.co.in/. You may please contact Mr. Vijay Pipaliya at 9870099713 and Email ID; admin@eauctions.co.in for any support and assistance if required

Debashis Nanda Liquidator, Abhinav Steels and Power Limited

Date: 31/10/2023 Place: Ghaziabad

Address: CS-14, C Floor, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh Email ID: liquidator.abhinavsteel@gmail.com, dnanda.cma@gmail.com

IBBI Registration No.: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316



STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED Regd. Off: G-17, Krishna Apra, Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura New Delhi 110034

CIN: L74899DL1987PLC027057 E-mail: info@stancap.co.in,stancap.delhi@gmail.com,

Website: http://www.stancap.co.in, Tel: 011-40154984

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended

**September 30, 2023** 

(Rs. In lakhs)

SI.	Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Year ended
No.	raiticulais	30-Sept-23 (Unaudited)	30-Sept-23 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations	565.42	1117.21	142.13
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	322.76	629.55	19.94
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	322.76	661.55	19.94
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	230.52	489.55	14.76
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	230.52	489.55	14.76
6	Paid up Equity Share Capital	4900.01	4900.01	400.01
7	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter)			
	1. Basic	Rs.0.47	Rs.1.00	Rs.0.37
	2. Diluted	Rs.0.47	Rs.1.00	Rs.0.37

Notes: The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.stancap.co.in.

The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 30-Oct-2023

By the Order of the Board For Standard Capital Markets Limited Ram Gopal Jindal Managing Director

DIN-06583160

Date: 30.10.2023

Place: New Delhi

**Aditya Birla Housing Finance Limited** Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat – 362266 Vijaya Building, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

APPENDIX IV[See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Possession Notice(for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described hereir below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rul8 the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of mentioned below and interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in respect of time

1. Name of Borrower: Yogesh Chandra, Vidhya Thapliyal

available, to redeem the secured assets.

South: Road 20 Ft.

New Delhi

Outstanding: Rs. 19,50,851.94/- (Rupees Ninteen Lac Fifty Thousand Eight Hundred Fifty One and Ninety Four Paise Only)

Demand notice Dated: 21.08.2023 Date of Possession: 27.10.2023 **Description of the Immovable Property** 

All that Piece and Parcel of Second Floor Without Roof Rights Out Of Property No. 178-A, Land Area Measuring 75 Sq. Yds., Falling Under Khasra No. 25/17, Situated In The Area Of Village Razapur Khurd Delhi, State: Delhi, Colony Known As Mohan Garden In Block-P, Uttam Nagar, New Delhi-110059, With Common Staircase, Passage And Entrance Leading From Ground Floor To Top Floor, With One Small Car Parking At Parking Floor And With The Proportionate Free Hold Rights Of The

Land Underneath, And Bounded As: East: Others Plot, West: Others Plot, North: Others Plot,

2. Name of Borrower: Sushma Chopra (In The Capacity Of Available Legal Heir Of Dheeraj Chopra) Outstanding: Rs. 10,56,674.00/- (Rupees Ten Lac Fifty Six Thousand Six Hundred Seventy Four Only) Date of Possession: 27.10.2023 Demand notice Dated: 21.08.2023

Description of the Immovable Property

All That Piece And Parcel Of Built Up Upper Ground Floor, Without Roof/Terrace Rights, Front Side Lhs, Area Mesuring 85 Square Yards, Out Of Above Said Built Up Property Bearing No. Rz-166a, Total Land Area Measuring 292 Square Yards, Out Of Mustatil No. 7, Killa 24, Situated In The Revenue Estate Of Village Matiala, Delhi State, Abadi Known As Khushi Ram Park, (T-Block), Gali No. 4, Uttam Nagar, New Delhi-110059, And Bounded As: East: Portion Of Plot No. 166a, West: Plot No. 167, North: Road, South: Gali.

Date: 27.10.2023 Authorised Office Place: New Delhi Aditya Birla Housing Finance Limited

financialem epan

Place - Kolkata Date - 29th October, 2023

Name of the Borrower/

2. 1. Mr. Amjad (Borrower cum Mortagagaor), S/o Mr. Amjuhi All that part and parcel of the property

+ Interest Legal and other expenses

20,67,584.00

04.02.2023 25.10.2023

Rs. In Lakhs

Authorized Officer, INDIAN BANK

# ई-नीलामी सूचना मैसर्स इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड (परिसमापन में) कॉपोंरेट देनदार का पंजीकृत पता : एच ब्लॉक, पहली मंजिल,

धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी, नवी मुंबई-400710 परिसमापक :अनूप कुमार परिसमापक पंजीकृत पताः चैबर नंबर 734, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054 परिसमापक संचार पताः सी-708, आई थम टावर-सी, प्लॉट नं. 140,

संक्टर-62, नोएडा, यूपी-201301 ईमेल आईडी : liq.itvl@gmail.com | संपर्क नंबर : 0120-6870711 एवं 8929015290

### र्ड-नीलामी

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2018 के विनियमन 32 (ए) से (डी) और आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 37 ए के तहत कंपनी की संपत्तियों की बिक्री बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 15.11.2023 | नीलामी की तिथिः 30.11.2023 (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण "एनसीएलटी", मुंबई द्वारा दिनांक 17.03.2023 के आदेश द्वारा नियक्त परिसमापक के कब्जे में मेसर्स इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेंड (परिसमापन में) नामक कंपनी की संपत्ति की बिक्री। कंपनी की संपत्तियों की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://right2vote.in/eauction/के माध्यम से की जाएगी।

## आरक्षित मूल्य ईएमडी।NR वृद्धिशील बोली INR (करोड़ में) (करोड़ में) राशि।NR विवरण

श्रेणी ए: आई बीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 32 (ए) से (डी) के तहत कॉर्पो रेट देनदार की संपत्ति की बिक्री नीलामी की तिथि एवं समयरू 30.11.2023 प्रातः 10:00 बजे से अपराह 2:00 बजे तक आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 11,90,00,000 | 1,19,00,000 | 10,00,000 2016 के विनियमन 32 (ए) से (डी) के तहत मुंबई एच ब्लॉक, पहली मंजिल, धीरूभाई

अंबानी नॉलेज सिटी, मुंबई -400710 और व्हाइटफील्ड हाउस बेंगलुरु में स्थित कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति की बिक्री। 💠 प्रक्रिया दस्तावेज में उपर्युक्त संपत्तियों के विस्तृत विवरण के लिए कृपया अनुबंध 7

"संपत्ति का विवरण" देखें श्रेणी बी: "तत्काल वसूली योग्य संपत्ति नहीं" (एनआरआरए) का असाइनमें ट आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 37ए के तहत नीलामी की तिथि एवं समय: 30.11.2023 दे।हपर: 02:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक

1. आईबीसी, 2016 की धारा 66 के तहत "नॉट | खुला प्रस्ताव | 50,00,000 | रेडली रियलिजेबल एसेट्स' (एनआरआरए) यानी विक्रेताओं को उन्नत, व्यापार प्राप्य और धोखाधडी वाले आवेदन माननीय एनसीएलटी, पीठ-IV, मुंबई के समक्ष लंबित हैं। (आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 37ए के तहत) प्रक्रिया दस्तावेज में उपर्यक्त परिसंपत्तियों के विस्तृत विवरण के लिए कृपया अनुबंध 8

"संपत्ति का विवरण" देखें। नीलामी प्रक्रिया के लिए नोट सः

· प्रचुर स्पष्टता के लिए यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसंपत्तियों को हैंडओवर तिथि के अनुसार "जैसा है", "जहां है", "जो भी है" और "उपचार रहित" पर बेचा जाएगा।

कॉरपोरेट देनदार की बिक्री एक चालित कन्सर्न के रूप में "जैसा है", "जहां है", "जो भी है" और "कोई उपचार रहित" पर बेचा जाना प्रस्तावित है और कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रस्तावित बिक्री में उस शीर्षक को छोड़कर किसी भी शीर्षक का हस्तांतरण शामिल नहीं है जो हस्तांतरण की तारीख को कंपनी की परिसंपत्तियों पर था। हालांकि परिसंपत्तियों से जुड़ी किसी भी देनदारियो को हस्तांतरित करने का इरादा नहीं है। ईओआई आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह सभी वैधानिक देनदारियों / करों / मांगों / दावों / प्रभारों आदि का पता लगाए, जो आज की तारीख में बकाया हैं या प्रासंगिक संपत्ति के संबंध में देय होने वाला हैं।

इस नोटिस को बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन के साथ पढ़ा जाएगा जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण ऑनलाइन ई—नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और वचन पत्र, ई—नीलामी के सामान्य नियम और शर्ते शामिल हैं जो वेबसाइट https://right2vote.in/eauction/ पर उपलब्ध हैं या संपर्क करें #0120—6870711, 8929015290, ई—मेलः liq.itvl@gmail.com

अस्वीकरणः विज्ञापन का उद्देश्य बोलीदाताओं के हित का पता लगाना है और यह परिसमापव की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। परिसमापक के पास किसी भी समय और किसी भी संबंध में, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समयसीमा या इसमें शामिल प्रक्रिया सहित इस निमंत्रण को संशोधित करने और / या रद करने का अधिकार सुरक्षित है ।

10,00,000

**अनुप कुमार** परिसमापक, मैसर्स इंडिपेंडेंट टीवी लिमिटेड दिनांक : 31.10.2023 स्थान : दिल्ली आई बीबीआई पंजीकृत संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911

#### इक्विटास स्माल फाइनांस बैंक लिमिटेड (पूर्व में इक्विटास फाइनांस लिमिटेड) equitas पंजीकृत कार्यालय : नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तिमलनाडू-600 002.

लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था चुंकि नीचे वर्णित ऋणधारक इस राशि को निर्धारित अवधि में वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, नीच वर्णित, तथ आम जनता को सुचित किया जात कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यह नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय बकाया राशि तथा उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ मैं. इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

कब्जा सचना-(नियम 8 (1) के अंतर्गत) अचल सम्पत्ति के लिए)

क्र सं.	ऋणधारक( कों )⁄ गारंटर( रों ) का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
1	शाखा : अलवर ऋण स. SEIBAWRO240701 ऋणधारक : श्री असलम खान सह-ऋणधारक : श्रीमती अतीमन	उस पर वर्तमान तथा भविष्य के सभी सुपर स्ट्रक्चर के साथ पट्टा नं. 035, ग्राम गुगडोड, ग्राम पंचायत बगाड़, पंचायत सिमित रामगढ, जिला अलवर राजस्थान, एरिया माप 241 वर्ग यार्ड्स/2169 वर्ग फीट में स्थित गैर-कृषि सम्पत्ति के रूप में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा, सम्पत्ति की चौहद्दी : उत्तर : असरू का मकान, दिक्ष्जण : शेर मोहम्मद का मकान, पूर्व : हारुण एवं अन्य का मकान, पश्चिम : सामूहिक मार्ग, एरिया माप 241 वर्ग यार्ड्स/2169 वर्ग फीट	27-04-2023 तथा रु. 286200/-	27-10-2023
तिथि	: 31.10.2023, स्थान : राजस्थान	प्राधिकृत अधिकारी, इक्विट	ास स्मॉल फाइनां	स बैंक लिमिटेड

### P muthoot HOUSING FINANCE

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः टीसी नंबर 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नन रोड, तिरुवनंतपुरम - 696 034, कॉपीरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रेस्केंजो, प्लॉट नंबर सी 38 और सी 39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051, ईमेल आईढी: authorized.officer@muthoot.com

#### मांग सूचना वितीय संपत्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षों हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13 (2) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मुध्द हाउसिंग फाइनेंस कंपर्न लिमिटेंड ("एमएचएफसीएल") नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 न उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया. जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर को अपनी देनदारी का पर निर्वहन करने के लिए कहा गया था । संबंधित नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर और नीचे दिए गए वैकल्पिक सेवा के तरीके के रूप में नोटिस के प्रकाशन के माध्यम से कंपनी को नवीनतम ब्याज, लागत और शुल्क सहित संपूर्ण बकाया का भुगतान करने को कहा गया था। ऋण व उचित पुनर्भगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति को क्रमशः उक्त उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर द्वारा एमएचएफसीएल कं गिरवी रखा गया है।

क्र	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता /	एनपीए की	डिमांड नोटिस	कुल ओ / एस राशि (रु)
सं	गारंटर का नाम	तिथि	की तारीख	भविष्य में लागू ब्याज
16	ऋटण खाता संख्या 15100074615, 1. अमिल यादव, 2. शीला देवी, 3. लाल बाबू यादव, 4. नीरज कुमार	28—सितम्बर —2023	25-अक्टूबर-2023	04—अक्टूबर—2023 तक रु.10,77,331 /— (रुपये दस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ इकतीस मात्र)।

**सुरक्षित संपत्ति(याँ)/अचल संपत्ति(याँ) का विवरण** : संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल, खसरा संख्या 548 जो गांव-साहिबाबाद, परगना-लोनी, तहसील-दादरी, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 में रिथत है। 125 वर्ग यार्ज का क्षेत्रफल , भूखंड की सीमा है:- पूर्व - 8 फीट चीड़ी लंडक, पश्चिमः – अन्य का घर, उत्तरः – संडक, दक्षिणः – मेसर्स जैनत इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की सीमा दीवार। ऋण खाता संख्या 15600084564. 03-अक्टूबर-2023 तक रु.4,97,730/- (चा

2. 2. आशा जीतेन्द्र, 3. लोकेश कुमार सुरक्षित संपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विवरण : संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल जिसका खसरा नंबर - 6312, ग्राम - शीर गढ़ी, तहसील और जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250004, क्षेत्रफल 33.44 वर्ग मीटर, है। प्लॉट की सीमाएँ हैं: – पूर्व: – 25 फीट / रामवीर का प्लॉट, पश्चिम: - 25 फीट / सुखबीर का प्लॉट, उत्तर: - 14 फीट 4 इंच / रास्ता 10 फीट चीड़ा, दक्षिण: -14 फीट 4 इंच / शर्माजी का प्लॉट

लाख सत्तानबे हजार सात सौ तीस रुपये मार्चा

-				
3.	ऋण खाता संख्या 15600087340 1.अरविंद कुमार जयवीर, 2.सपना अरविंद तोमर, 3.संजीव कुमार	28-सितंबर- 19 2023	अक्टूबर 2023	12—अक्टूबर—2023 तक रु.7,22,830 / — (सात लाख बाईस हजार आठ सी तीस रुपये मात्र)

सुरक्षित संपत्ति(याँ) / अचल संपत्ति(याँ) का विवरण : संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल खसरा नंबर - 858 , जो संजय विहार, जय भीम नगर के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश में रिधत है, जिसका क्षेत्रफल 82 वर्ग यार्ज यानि 68.56 मीटर, है प्लॉट की सीमा है - पूर्व - 18 फीट खाली प्लॉट, पश्चिम - 18 फीट श्रीमती अर्चना पत्नी श्री ऑकार का घर उत्तर: -41 फीट अन्य की संपति, दक्षिण: -41 फीट और फिर रास्ता 15 फीट चौड़ा है।

यदि उक्त उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर उपरोक्तानुसार एमएचएफसीएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो एमएचएफसीएल ऊपर उल्लिखिर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने का हकदार होगा और अन्य उपलब्ध कार्रवाई करेगा। कानून के अनुसार, कंपनी पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिन लागत और परिणाम पर निर्मर है। उक्त उचारकर्ता, सह–उचारकर्ता और गारंटर को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपचारा (13) के प्रावधान वं तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है, चाहे वह बिक्री के माध्यम से हो एमएचएफसीएल की पूर्व सहमति वं बिना नोटिस में पड़ा या अन्यथा उल्लेख किया गया है।

स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः ३१ अक्टूबर, २०२३ हस्ता /- अधिकृत अधिकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

# Genus

1. जीतेन्द्र कुमार कालूराम,

#### energizing lives **GENUS PRIME INFRA LIMITED** (Formerly Gulshan Chemfill Limited)

Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, Uttar Pradesh Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Ph.: 0591-2511242, E-mail: cs.genusprime@gmail.com, Website: www.genusprime.com, CIN: L24117UP2000PLC032010

_				ATLUE								Unless Other	wise Stated)
				STAND	ALONE					CONSO			
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023	Quarter Ended 30.06.2023	Quarter Ended 30.09.2022	Half Year Ended 30.09.2023	Half Year Ended 30.09.2022	Year Ended 31.03.2023	Quarter Ended 30.09.2023	Quarter Ended 30.06.2023	Quarter Ended 30.09.2022	Half Year Ended 30.09.2023	Half Year Ended 30.09.2022	Year Ended 31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	5.31	7.41	4.48	12.72	10.14	18.95	6.25	8.24	5.59	14.49	11.96	22.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.16)	(0.84)	0.16	(1.00)	(2.55)	(0.85)	(199.55)	(1.07)	0.20	(200.62)	(2.64)	(0.77)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.16)	(0.84)	0.16	(1.00)	(2.55)	(0.85)	(199.55)	(1.07)	0.20	(200.62)	(2.64)	(0.77)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.16)	(0.84)	0.16	(1.00)	(2.55)	(0.85)	(199.55)	(1.07)	0.20	(200.62)	(2.64)	(0.77)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.16)	(0.84)	0.16	(1.00)	(2.55)	(268.45)	(199.55)	(1.07)	0.20	(200.62)	(2.64)	(246.33)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.2/- each)	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53	298.53
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2.6	(36)	100	- 4		- 8	- 2		8		1 10	
8	Earnings Per Share (of Face value of Rs.2/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)		9 (1				10						
	Basic:	2.0	(0.01)	100	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(1.34)	(0.01)		(1.34)	(0.20)	(0.01)
	manufacture of the same of the												The second second

#### Diluted: Notes:

1 The above financial results of Genus Prime Infra Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 30th October, 2023. The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of the financial results.

(0.02)

2 The Above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian

Accounting Standards) Rules, 2015 as amended 3 Previous year/period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year classification.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Moradabad Date: October 30, 2023

(Amit Agarwal) Whole Time Director & CEO DIN: 00016133

इंडियन बक

आंचलिक कार्यालय कब्जा नोटिस ासावल लाइन्स, मुरादाबाद (८ नियम (१) के तहत अचल संपत्ति के लिए)

(1.34)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूनः गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 (54 का 2002) के तहत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार को नीचे लिखी दिनांक को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गया है इसलिए एतदद्वारा उधारकर्ता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत निम्नलिखित दिनांक को कब्जा ले लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से सर्व साधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन इंडियन बैंक के अधीन होगा। घारा 13 की उपधारा 8 में उपलब्ध समय के अनुसार ऋणी का ध्यान बंधक संपत्ति को उन्मोचित किये जाने हेत आमंत्रित किया जाता है। कब्जे वाली सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार से हैं-

पता—221—सी प्रेम नगर बरेली 2. श्रीमती शिवानी सक्सेना (पार्टनर, गारंटर, बंधककर्ता) पत्नी श्री विनित कुमार सक्सेना, निवासी 221 सी प्रेम नगर बरेली 3. श्री अनुज सक्सेना (पार्टनर) पुत्र श्री श्रम नगर बरेली 3. श्री अनुज सक्सेना (पार्टनर) पुत्र श्री श्रम नगर बरेली 4. श्री प्रशांत सुमन (पार्टनर और गारंटर) सुपुत्र जगदीश बहादुर सुमन, निवासी 222 प्रेम नगर बरेली 5. श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा (साझेदार और गारंटर) पुत्र बालेश्वर शर्मा निवासी गांव और पोस्ट—मोरना मुजफ्कर नगर बिहार 6. श्री विनीत कुमार सक्सेना आर/ओ 307—जी देहरादून कालिका धारचूला, पिथौरागढ़ शाखाः नगरिया परीक्षित बरेली  2. 1. श्री अमजद (उधारकर्ता / बंधककर्ता), पुत्र श्री अमजुही निवासी वार्ड नंबर 36 सानिया रानी मेवा कुँवर सीबी गंज बरेली 2. श्री तारिक कामरान (गारंटर), पुत्र इबादुल्ला अब्बासी, निवासी 77 बनखाना बरेली 3. श्री मो. अकरम (गारंटर), पुत्र रवर्गीय इस्माइल, निवासी— परतापुर जीवन सहाय पीलीभीत रोड बरेली	क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता/ शाखा का नाम	बन्धक सम्पत्ति का विवरण/ सम्पत्ति का स्वामी	बकाया राशि (धारा 13 (2) के तहत	मांग सूचना की तारीख	कब्जे की तारीख	
307—जी देहरादून कालिका धारचूला, पिथौरागढ़ शाखाः नगरिया परीक्षित बरेली  2. 1. श्री अमजद (उधारकर्ता / बंधककर्ता), पुत्र श्री अमजुही निवासी वार्ड नंबर 36 सानिया रानी मेवा कुँवर सीबी गंज बरेली 2. श्री तारिक कामरान (गारंटर), पुत्र इबादुल्ला अब्बासी, निवासी 77 बनखाना बरेली 3. श्री मो. अकरम (गारंटर), पुत्र स्वर्गीय इस्माइल, निवासी— परतापुर जीवन सहाय पीलीभीत रोड बरेली		पता—221—सी प्रेम नगर बरेली 2. श्रीमती शिवानी सक्सेना (पार्टनर, गारंटर, बंधककर्ता) पत्नी श्री विनित कुमार सक्सेना, निवासी 221 सी प्रेम नगर बरेली 3. श्री अनुज सक्सैना (पार्टनर) पुत्र श्री श्याम मुरारी लाल सक्सैना, निवासी 221 सी प्रेम नगर बरेली 4. श्री प्रशांत सुमन (पार्टनर और गारंटर) सुपुत्र जगदीश बहादुर सुमन, निवासी 222 प्रेम नगर बरेली 5. श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा (साझेदार और गारंटर) पुत्र बालेश्वर शर्मा निवासी गांव और	स्थित है मकान संख्या— 285, टाइप - C उत्सव महानर —II बरेली (उ०प्र०) जिसका क्षेत्रफल 167.07 वर्ग मीटर है। नामित जो श्रीमती शिवानी सक्सेना पत्नी श्री विनीत कुमार सक्सेना के श्री विनीत कुमार सक्सेना पुत्र श्री श्याम मुरारी लाल सक्सेना (से: प्लॉट नंबर 281 और 282 टाईप—C, दक्षिण की ओर से प्लॉट नंबर 294 टाईप—C पश्चिम की ओर से: रास्ता प्राइवेट	+ब्याज+अन्य खर्चे नाम पर है। (साझेदार गारंटर और बंधककर्त । : प्लॉट संख्या 286	, गारंटर और बं ) चौहद्दीः  र टाईप–C पूर्व	उत्तर की ओर की ओर से :	
वार्ड नंबर 36 सानिया रानी मेवा कुँवर सीबी गंज बरेली 2. श्री तारिक संख्या 547 व 548 जिसका क्षेत्रफल 98.47 वर्ग मीटर रिथत + श्याज+अन्य खर्च कामरान (गारंटर), पुत्र इबादुल्ला अब्बासी, निवासी 77 बनखाना बरेली 3. श्री मो. अकरम (गारंटर), पुत्र स्वर्गीय इस्माइल, निवासी— परतापुर जीवन सहाय पीलीभीत रोड बरेली रिजिस्ट्रार कार्यालय बरेली—II दिनांक 27 / 10 / 2023 चौहद्दी: उत्तर में: 18 फीट		307—जी देहरादून कालिका घारचूला, पिथौरागढ़					
बरेली 3. श्री मो. अकरम (गारटर), पुत्र स्वर्गीय इस्माइल, निवासी— परतापुर जीवन सहाय पीलीभीत रोड बरेली परतापुर जीवन सहाय पीलीभीत रोड बरेली रजिस्ट्रार कार्यालय बरेली—II दिनांक 27 / 10 / 2023 चौहद्दीः उत्तर में: 18 फीट		वार्ड नंबर 36 सानिया रानी मेवा कुँवर सीबी गंज बरेली 2. श्री तारिक	संख्या 547 व 548 जिसका क्षेत्रफल 98.47 वर्ग मीटर रिथत	+ब्याज+अन्य खर्चे	04.02.2023	25.10.2023	
विक्रता का आराजा, पूर्व मः अन्य व्यक्ति का आराजा, पश्चिम मः विक्रता का आराजा,		बरेली 3. श्री मो. अकरम (गारटर), पुत्र स्वर्गीय इस्माइल, निवासी-					



मंडल कार्यालय सस्त्र केन्द्र, 1-2, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा, Ph. No. 0562-2525895 Fax: 0562-2850131 E-Mail: cs8182@pnb.co.in माँग नोटिस

ासक्यारिटाइजशन एण्ड रिकन्स्टेक्शन आफ फाइनान्शयल एसट्स एण्ड इन्फोर्समैन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरैस्ट एक्ट, 2002 की धारा-13(2) के अन्तर्गत नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा–13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋणीयों / गारन्टरों को मांग नोटिस रजिस्टर्ड / स्पीड डाक द्वारा प्रेषित किये थे। परन्तू उक्त माँग नोटिस बिना डिलीवरी वापिस आ गये। इस मांग नोटिस की प्रति बधंक सम्पत्ति के मुख्य द्वार पर बैंक द्वारा चस्पा कर दी गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित ऋणीयों / गारन्टरों से निम्नलिखित देनदारी, संविदात्मक ब्याज / खर्चों इत्यादि का भूगतान इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर अदा करने की नोटिस प्रेषित किया जा रहा है। यदि वे उक्त देय राशियां इस माँग नोटिस के अनुसार भूगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक उक्त एक्ट की धारा–13 उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी अधिकार जिसका विवरण उक्त धारा में दिया गया है, का प्रयोग करेगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

उक्त अधिनियम की धारा–13(13) में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना बैंक की लिखित अनुमति के ऋणी / गारंटर / बंधककर्ता प्रतिभृति आस्तियों जिनका वर्णन नीचे सूची में दिया गया है, की बिक्री लीज एवं अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

ऋणियों / गारण्टरों / का नाम व पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	नोटिस की रकम
म0 दीपक रबर इंडस्ट्रीज, पता—57/93, नगला बासी जगनेर रोड़, आगरा, श्री चन्द्रदीप जैन पुत्र श्री श्याम लाल जैन, पता 1— मकान नं0—39/6बी/4, पुरानी ईदगाह कॉलोनी, आगरा, पता 2— 57/93, नगला बरी, पी एण्ड टी कॉलोनी के पास, आगरा, श्रीमती विनिता जैन पत्नी श्री चन्द्र दीप जैन (गारण्टर), श्री गौरव जैन पुत्र श्री चन्द्र दीप जैन (गारण्टर), दोनों का पता— मकान नं0—39/6बी/4, पुरानी ईदगाह कॉलोनी, आगरा, श्रीमती रिष्म जैन पत्नी श्री त्रिदीप जैन (गारण्टर), श्री त्रीपक जैन पुत्र श्री त्रिदीप जैन (गारण्टर), श्रीमती सुनिता जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन (गारण्टर), सभी का पता— मकान नं0—39/11ए, पुरानी ईदगाह कॉलोनी, आगरा, श्री संदीप जैन पुत्र श्री नवदीप जैन (गारण्टर), पता— 39/11ए, कॉलोनी, आगरा।	1. साम्यक बंधक रिहायशा सम्पात्त प्लाट न0 19, सम्पत्ति नं0 39/7 का भाग पुरानी ईदगाह कॉलोनी नगर कांति कॉलोनी, रकाबगंज वार्ड आगरा, एरियाः 115.18 वर्ग मीटर, स्वामित्व 1—श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन, स्वामित्व 2—श्रीमती रिश्म जैन पत्नी श्री त्रिदीप कुमार जैन, स्वामित्व 3—श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री नवदीप कुमार जैन, स्वामित्व 4—श्रीमती विनिता जैन पत्नी श्री चन्द्रदीप कुमार जैन, चौहद्दीः पूर्वः सम्पत्ति 39/7 का भाग, पश्चिमः श्री जितेन्द्र सिरोही की सम्पत्ति, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।  2. साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति नं0 301 एवं न्यू नं0 57/93, 57/93 ए (भाग) नगला बासी निकट खेरिया मोड़ लोहा मण्डी वार्ड आगरा। एरियाः 158.85 वर्ग मीटर, स्वामित्व 1—श्री दीपक जैन पुत्र श्री नवदीप जैन, स्वामित्व 2—श्री संदीप जैन पुत्र श्री चन्द्रदीप जैन, स्वामित्व 2—श्री संदीप जैन पुत्र श्री चन्द्रदीप जैन, स्वामित्व 3—श्री गौरव जैन पुत्र श्री चन्द्रदीप जैन, चौहद्दीः पूर्वः गली 15" चौड़ी, पश्चिमः प्लॉट नं0 57/93, 57/93ए (भाग) अनिल जैन की सम्पत्ति, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः रास्ता एवं निकास 10" चौड़ा।		रू० 31,57,739.9 दि. 30.09.20 तक + दे ब्याज एवं अ खर्चे
श्री रमेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह (ऋणी), श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री रमेन्द्र सिंह	साम्यक बधक सम्पात्त स्थित एल.आइ.जा. मकान नं0 193 एवं 194, जवाहर पुरम योजना, फेज-।, लोहा मण्डी वार्ड, आगरा, एरियाः 55.74 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री रमेन्द्र सिंह के नाम। वाइड रजिस्टर्ड टाईटल डीड दि. 20.12.2011, रजिस्टर्ड दि. 20.12.2011 बही नं0 1 जिल्द नं0 8313 पेज्स नं0 263—288 सीरियल नं0 14171 उप रजिस्ट्रार, द्वितीय, आगरा। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं0 190, पश्चिमः प्लॉट नं0 199, उत्तरः निकास एवं रोड 4.57 मी. चौड़ा, दक्षिणः एल.आई.जी. प्लॉट्स।	12.10.203	रू0 19,75,730.9 दि. 30.09.20 तक + दे ब्याज एवं अ खर्चे
दिनांकः 31.10.2023	स्थानः आगरा	Я	धिकृत अधिका



# एमएमटीसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स 7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003, फोन नं: 24362200; 2436189, इमेल : mmtc@mmtclimited.com, akmisra@mmtclimited.com

वेबसाईट : www.mmtclimited.com CIN: L51909DL1963G0I004033

60वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर एवं ई—वोटिंग की सदस्यों को सूचना कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके तहत नियमों और कारपोरेट मामले - मंत्रालय द्वारा उनके परिपत्र सं. 14 / 2020, 17 / 2020 और 20 / 2020 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ["सेबी(एलओडीआर) विनियम"] और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") की

गये निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जायेगी:--1. दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र, लाम-हानि लेखा (एकल और समेकित दोनों) को अपनाना. निदेशकों की रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ।

सुविधा के माध्यम से 22 नवंबर, 2023) को अपराह 11.30 बजे कंपनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस में दिये

2. श्री आर.आर.सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) की पुनर्नियुक्ति।

3. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक / शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

4. सुश्री आरती भटनागर की अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और श्रीमती एस.मीनाक्षी, श्री श्रीनिवास राव मदी और श्री नबरून नायक की गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियक्ति को नियमित करना।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 60वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट, एमडीए रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के साथ-साथ प्रबंधन के जवाब के साथ तलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा(स्टैंडअलोन और समेकित दोनों), भारत के एएंडजी की टिप्पणियां शामिल हैं, ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के अन्य विवरण / जानकारी आदि ई—मेल के माध्यम से उन सभी को सदस्यों को जिनके ई—मेल पते उपरोक्त एमसीए परिपन्न और सेबी परिपन्न के अनुसार कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं, को 30 अक्टूबर, 2023 को भेज दिए गए हैं और अन्य विवरणों के साथ सभी सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.mmtclimited.com), स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("CDSL") की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की घारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक — 2 और एमसीए परिपन्न सदस्यों को 60वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाने वाली रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 19 नवंबर, 2023 (सुबह 09.00 बजे) को शुरू होगी और मंगलवार, 21 नवंबर, 2023 (शाम 05.00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा

वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला होगा, वे वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भी

भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर मतदान कर देता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग,

एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 60वीं एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। मै.वीएपी एंड एसोसिएटस - कंपनी सचिव, प्रैक्टिसिंग कंपनी (एफसीएस नंबर: एफ8323, सी.पी. नंबर:13901), को संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए कंपनी द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यों का मतदान अधिकार 15 नवंबर, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") तक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एजीएम के दौरान. जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं रह जाता है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से माना जाये।

कोई भी व्यक्ति, जो 60वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, ई-वोटिंग कर सकता है और निर्देशों का पालन करके एजीएम में भाग ले सकता है। जैसा कि 60वीं एजीएम की सूचना में या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध किया गया है। तथापि, यदि वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

यदि आपने अपना ई–मेल पता कंपनी / डीपी के साथ पंजीकृत नहीं किया है, तो आप ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

प्रत्यक्ष धारिता	कृपया फोलियो नम्बर, शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्केन कॉपी ( सामने और पीछे) पैनकार्ड की स्वंय सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड की स्वंय-सत्यापित स्कैन की गई प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज जैसे आवश्यक विवरण, ई-मेल के माध्यम से कंपनी की ई-मेल आईडी mmtc@mmtclimited.com आरटीए (admin@mcsregistrars.com) पर उपलब्ध कराएं ।
डीमेट धारिता	कृपया डीमेट खाता विवरण (सीडीएसएल–16 अंकों की लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल का 16 अंको का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाईट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरणी की प्रति, आधार कार्ड की स्वं—सत्यापित स्कैन की गई प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज कंपनी, ई—मेल आईडी mmtc@mmtclimited.com आरटीए (admin@mcsregistrars-com) पर उपलब्ध कराएं ।

इसकें अलावा, अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों और शेयर हस्तांतरण पुस्तकों का रजिस्टर 60वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए गुरूवार,

16 नवंबर 2023 से 22 नवंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर यानी 24 नवंबर, 2023 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और घोषित परिणाम समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (mmtc@mmtclimited.com) और सीडीएसएल की वेबसाइट(www.evotingindia.com) । पर अपलोड किये जाएंगे ।

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने या ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और www.evotingindia.com, या सहायता अनुभाग पर उपलब्ध ई—वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं। helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ई-मेल लिखें या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयुचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को संबोधित किया जा सकता है या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33.पर कॉल कर सकते हैं।

दिनांक-30.10.2023 जगह- नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से और के लिए (अजय कुमार मिश्रा) कंपनी सचिव

www.readwhere.com

दिनांकः 30.10.2023

स्थानः बरेली, पिथौरागढ

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक